

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 592]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2019 — भाद्रपद 21, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 सितम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा.-253/पंग्राविवि/22/2019/374/. — छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 39 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(2) किसी अभ्यर्थी को रिटर्निंग आफिसर द्वारा किये गये किसी प्रतीक का आवंटन अंतिम होगा, सिवाय उस दशा में जहाँ कि वह आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये आदेश या अनुदेशों से असंगत हो, ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत के पंच तथा सरपंच के निर्वाचन की दशा में जिला निर्वाचन अधिकारी, जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की दशा में संभागीय आयुक्त तथा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की दशा में राज्य निर्वाचन आयोग, प्रतीक के आवंटन का पुनरीक्षण ऐसी रीति से कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 9th September 2019

NOTIFICATION

No./Panch.-253/PGVV/22/2019/374/. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 39, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely,-

"(2) Any symbol allotted by the returning officer to any candidate shall be final, except in such case where the order or guidelines issued by the commission in the regards differs, in such condition, in case of election of panch and Sarpanch of Gram Panchayat the District Election Officer, in the case of election of member of Janpad Panchayat the divisional commissioner and in case of election of member of Zila Panchayat the State Election Commission may review for allotment of symbol in such manner as they deemed fit."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA KUMAR SHUKLA, Deputy Secretary.